

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 288]	दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 25, 2019/कार्तिक 3, 1941	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 261
No. 288]	DELHI, FRIDAY, OCTOBER 25, 2019/KARTIKA 3, 1941	[N.C.T.D. No. 261

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व-1) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 24 अक्टूबर, 2019

सं. 61/2018 – राज्य कर

सं. फा. 3(60)/वित्त (राज. 1)/2019-20/डीएस-VI/510.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03), जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 51 के साथ पठित धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, वित्त विभाग (राजस्व-1), की अधिसूचना सं. 50/2018-राज्य कर, तारीख 5 सितम्बर, 2019, जो दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग IV, में सं. फा. 3(56)/वित्त (राज.-1)/2019-20/डीएस-VI/413, तारीख 5 सितम्बर, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:--

उक्त अधिसूचना के परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

“परंतु यह और कि इस अधिसूचना की कोई बात किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम से किसी अन्य पब्लिक सेक्टर उपक्रम को, चाहे वह सुभिन्न व्यक्ति हो या न हो, माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय को 1 अक्टूबर, 2018 से लागू नहीं होगी।”।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ए. के. सिंह, उप सचिव-VI (वित्त)

टिप्पण: मूल अधिसूचना दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग IV, में सं. फा. 3(56)/वित्त (राज.-1)/2019-20/डीएस-VI/413 तारीख 05 सितम्बर, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी और सं. फा. 3(59)/वित्त (राज.-1)/2019-20/डीएस-VI/489, तारीख 17 अक्टूबर, 2019 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 57/2018-राज्य कर तारीख 17 अक्टूबर, 2019 द्वारा पश्चातवर्ती संशोधन किया गया।

FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT

NOTIFICATION

No. 61/2018- State Tax

Delhi, the 24th October, 2019

No. F. 3(60)/Fin (Rev-I)/2019-20/DS-VI/510.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1, read with section 51 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (3 of 2017), hereafter in this notification referred to as the said Act, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of National Capital Territory of Delhi, in the Department of Finance (Revenue-1), No. 50/2018-State Tax, dated the 5th September, 2019, published in the Gazette of Delhi Extraordinary, Part IV, vide No.F.3(56)/Fin(Rev-I)/2019-20/DS-VI/413, dated the 5th September, 2019, namely:—

In the said notification, after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided further that nothing in this notification shall apply to the supply of goods or services or both from a public sector undertaking to another public sector undertaking, whether or not a distinct person, with effect from the 1st day of October, 2018.”.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

A. K. SINGH, Dy. Secy. VI (Finance)

Note: The principal notification was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide No. F.3(56)/Fin(Rev-I)/2019-20/DS-VI/413, dated the 5th September, 2019 and subsequently amended vide notification No. 57/2018-State Tax, dated the 17th October, 2019, published vide No. F.3(59)/Fin (Rev-I)/2019-20/DS-VI/489 dated the 17th October, 2019.